



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2006/पौष 27, 1927

No. 19]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2006/PAUSA 27, 1927

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 20 (अ).— सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अधीन प्रभागों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया जाता है :—

### ग्रामीण विकास विभाग

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	दूरभाष सं०	संबंधित विषय
1	एन.के. साहू	निदेशक (मॉनी.) / एनई	23383006	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी एवं उनका मूल्यांकन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मामले।
2	सुश्री पी.वी.वी.एस. कुट्टी	निदेशक (एनएलएम)	23070308	राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं, राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समितियों संबंधी मामले।
3	बी.डी. विदी	निदेशक (मॉनी.-पी एण्ड पी)	23384707	वार्षिक योजना, नीति, जिलास्तरीय निगरानीकर्ताओं (डीएलएम), माइक्रो स्तरीय प्रभाव अध्ययनों एवं बीपीएल जनगणना आदि से संबंधित सभी मामले।
4.	सुश्री रश्मि प्रियदर्शिनी	निदेशक (एसजीएसवाई-I)	23381300	एसजीएसवाई का विपणन घटक, सरस आदि।

5.	बी. एन. तिवारी	निदेशक (एसजीएसवाई)	23386553	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) से संबंधित नीतिगत मामले, संसदीय मामले, एसजीएसवाई के अन्तर्गत निधियां जारी करना एवं उनका आवंटन, एसजीएसवाई से संबंधित बजट, विशेष घटक योजना एवं जनजातीय उप-योजना, महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता, एसजीएसवाई संबंधी वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना ।
6	वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव	निदेशक (आरएच)	23384980	ग्रामीण आवास से संबंधित सभी मामले जैसे इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन, नीतिगत मामले, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्र, समितियों से संबंधित मामले, योजना के संबंध में दिशा-निर्देश, परियोजनाओं का अनुमोदन, निधियां जारी करना, बजट, योजनाओं की निगरानी तथा संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर सैल आदि ।
7	वी. वेंकटेशन	निदेशक (जीसी (पी)/ओएल)	23384541	राजभाषा, सामान्य समन्वय एवं संसदीय कार्य आदि से संबंधित मामले ।
8	ए.के. सक्सेना	निदेशक (आईईसी)	23073776	सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) संबंधी सभी मामले, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन एवं प्रसारण तथा इनसे संबंधित मामले, मंत्रालय के पुस्तकालय तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी मामले आदि ।
9	बलराम शर्मा	निदेशक (एसजीआरवाई-I)	23782671	काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) और

				राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) से संबंधित सभी मामले ।
10	संजय सिंह	निदेशक (एनएफएफडब्ल्यूपी)		संचार, प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी मामले ।
11	डा. रंजना गुप्ता	निदेशक (पीसी/एनएसएपी)	24363554	सार्वजनिक सहयोग (पीसी), सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहयोग (पीपीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष (एनएफआरडी) से संबंधित सभी मामले ।
12	सीआरके नायर	निदेशक (आरसी)	23386378	उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन तथा अधिकार-प्राप्त समिति, संसद समन्वय, मीडिया, विविध, जेबीआईसी, पीएमजीएसवाई से संबंधित डीएफआईडी ।
13	ए.के. दत्त	निदेशक (आरसी)	23782560	हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन एवं नीतिगत दिशा-निर्देश, संसाधन सृजन, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां (एनआरआरडीए), विश्व बैंक तथा पीएमजीएसवाई से संबंधित भारत निर्माण योजना ।
14	बी. प्रधान	निदेशक (आरसी)	23097048	बिहार (विश्व बैंक वित्तपोषित पीएमजीएसवाई सहित), मध्य

				प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, प० बंगाल, उड़ीसा में पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन और संसदीय समन्वय, वार्षिक योजना, बजट, एशियाई विकास बैंक, पीएमजीएसवाई से संबंधित ऑन लाइन प्रबंधन, निगरानी तथा लेखा प्रणाली (ओएमएमएस) ।
15	वी.जे. मेनन	उप-सचिव (आईएफडी)	23381967	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सभी वित्तीय अनुमोदन और बजटीय मामले ।
16	सुश्री वनिता रतन शर्मा	उप-सचिव (एसजीएसवाई)	23381028	जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डीआरडीए) प्रशासन, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत क्रेडिट मामलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, बैंकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय, एसजीएसवाई कार्यक्रमों का अभिसरण, केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सीएलसीबी), परियोजना निदेशकों का सम्मेलन आदि ।
17	ई.जे. जोस	उप-सचिव (आईसी/ट्रे./ एनआईआरडी)	23384399	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी), प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) से संबंधित सभी मामले ।
18	एस.के. बत्रा	उप-सचिव (एनएसएपी)		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं की निगरानी जिनमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना शामिल हैं ।

19	कृष्ण कुमार	उप सचिव (एसजीआरवाई)	23384338	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित सभी मामले - जैसे नीतिगत मुद्दे, निधियों/खाद्यान्नों के केन्द्रीय अंश की रिलीज, नियंत्रण-महालेखा परीक्षक के मुद्दे, बजट दिशा-निर्देश, निगरानी एवं बजट आबंटन आदि ।
20	अशोक मेहता	उप सचिव (आरसी)	23386173	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन और सामान्य समन्वयन, बिहार से संबंधित अधिकार संपन्न समिति और पीएमजीएसवाई से संबंधित निधियों की रिलीज ।
21	वी.बी. सिंह	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	23389828	ग्रामीण विकास विभाग के सामान्य प्रशासन और स्थापना से संबंधित सभी मामले, संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी), सतर्कता आदि ।
22	अतुल गुप्ता	संयुक्त निदेशक (एसजीएसवाई)	23388431	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं और एसजीएसवाई का निगरानी कार्य आदि ।
<b>भूमि संसाधन विभाग</b>				
क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	दूरभाष	विषय
1	एन. के. सिंह	निदेशक	23062456	भूमि संसाधन विभाग के विभागध्यक्ष विभाग समूह 'ग' के पदों के मामले में नियोक्ता प्राधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी, समूह 'घ' के पदों के मामले में अपीलीय प्राधिकारी ।
2	एम. असलम	निदेशक	23061792	समेकित वित्त प्रभाग के कार्य का पर्यवेक्षण, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग के मामले में वित्तीय प्रस्तावों की जांच ।
3	डी.पी. रॉय	निदेशक	24360946	भूमि संसाधन प्रभाग के कार्य का पर्यवेक्षण, भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज के संबंध में प्रस्तावों की जांच और राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने संबंधी ।
4	पी.के. सारंगी	निदेशक	24362396	भू-कानूनों से संबंधित विधायी प्रस्तावों की जांच, भू-हदबंदी से अधिक जमीन, सरकारी बंजर भूमि भूदान भूमि के वितरण से संबंधित प्रस्तावों की जांच और उसके संबंध में सिफारिश करना और अन्य संबंधित मामले ।
5	अनूप वघवा	डीआईजी (एफ)	24360873	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)/मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) प्रभाग के कार्य का पर्यवेक्षण, डीपीएपी/डीडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति और निधियों की रिलीज, डीपीएपी/डीडीपी से संबंधित नीतिगत

				प्रस्तावों एवं अन्य संबंधित मामलों की जाँच ।
6	डॉ. हर्ष मित्त	डी आई जी (एफ)	23062351	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत प्रस्तावों की जाँच और परियोजनाओं की मंजूरी एवं निधियों की रिलीज के लिए सिफारिश करना और आईडब्ल्यूडीपी से संबंधित अन्य संबंधित मामले ।
7	ए.के. शुक्ल	उप सलाहकार (वानिकी)	23062616	हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, गोवा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी एवं निधियों की रिलीज, बंजरभूमि विकास कार्य बल से संबंधित मामले ।
8	श्रीमती अर्चना सिंह	ए.आई.जी. (एफ)	23062454	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा में आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी/निधियों की रिलीज ।
9	डॉ. रामाकृष्णय्या	वैज्ञानिक (टी.ई.)	23063160	प्रौद्योगिकी, विकास विस्तार, निवेश उन्नति तथा बायो ईंधन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा निधियों की रिलीज ।

2. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों को देखेंगे तथा ऐसी जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता मुहैया कराएंगे । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपने दायित्वों के सही निर्वहन के लिए यथावश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है । उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत जिस किसी भी अधिकारी की सहायता मांगी जाती है वह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की पूरी सहायता करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी प्रकार उल्लंघन होने के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (5) के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा ।

3. सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों से भी यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्राप्त अनुरोधों आदि की संख्या तथा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण रखें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विविध प्रावधानों, विशेषकर धारा 25, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

4. इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आईईसी) इस अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी हैं :-

श्रीमती नीलम साहनी  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष - (011) 23389432

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)

क्र.सं.	संगठन का नाम	पीआईओ का नाम तथा पदनाम	दूरभाष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद - 500 030	श्रीमती ए. धनलक्ष्मी, सहायक पंजीयक, एनआईआरडी	(040) 24008504
2	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए), 15, एनबीसीसी टावर, पांचवा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066	श्रीमती गार्गी कौल, निदेशक (वित्त)	(011) 51459189 26716930
3	लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), इंडिया हैबिटेड सेंटर, जोन - 5ए (कोर-सी), दूसरा तल, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	श्री सी.एस. पाण्डे, निदेशक	(011) 24656701

[ सं. के. - 11018/03/2005-आर.टी.आई. ]

सूरज भान, अवर सचिव

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Rural Development and  
Department of Land Resources)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2006

**G.S.R. 20(E).**— In pursuance of Section 5(1) of the Right to Information (RTI) Act, 2005, the following officers of the Ministry of Rural Development, in the Department of Rural Development and Department of Land Resources are designated as Central Public Information Officers (CPIOs) in respect of the divisions under their charge.:-

**Department of Rural Development**

Sl.no.	Name of officer (S/Sh)	Designation	Telephone nos.	Subject matters
1.	N.K.Sahu	Director (Mon.)/NE	23383006	Monitoring and Evaluation of rural development programmes and matters relating to North-East Region.
2.	Ms. PVVS Kutty	Director (NLM)	23070308	Matters relating to National Level Monitors, State level and District level Vigilance & Monitoring Committees.
3.	B.D.Virdi	Director (Mon-P&P)	23384707	All matters relating to Annual Plan, policy, District level monitors (DLM), Micro level Impact studies and BPL census etc.
4.	Ms. Rashmi Priyadarshini	Director (SGSY-I)	23381300	Marketing Component of SGSY, SARAS etc.
5.	B.N.Tiwari	Director (SGSY)	23386553	Policy matters relating to Swarna jayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), parliamentary matters, release and allocation of funds under SGSY, budget, special component plan and Tribal sub-plan relating to SGSY, economic empowerment of women, Annual Plan and Five Year Plan on SGSY.



6.	VLVSS Subba Rao	Director (RH)	23384980	All the subjects relating to Rural Housing like implementation of Indira Awas Yojana, policy matters, VIP references, matters relating to Committees, Guidelines in respect of the scheme, Approval of Projects, Release of Funds, Budgets, Monitoring of the schemes and holding of seminars/workshops, Information Technology & Computer Cell etc.
7.	V.Venkatesan	Director {GC (P)/OL}	23384541	Matters relating to Official Language, General coordination & Parliament work etc.
8.	A.K.Saxena	Director (IEC)	23073776	All the matters relating to Information, Education, Communication (IEC). Publication and broadcasting the rural development programmes in print and electronic media and the issues related thereto. All the matters relating to Library of the Ministry and the Right to Information Act, 2005 etc.
9.	Balram Sharma	Director (SGRY-I)	23782671	All matters relating to National Food For Work Programme (NFFWP) and National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS).
10.	Sanjay Singh	Director (NFWP)		All matters relating to Communication, Training, Information Education Communication (IEC), International Cooperation in respect of National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS).
11.	Dr. Ranjana Gupta	Director (PC/NSAP)	24363554	All the matters relating to Public Cooperation (PC), Public Private Partnership (PPP), Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA), National Fund for Rural Development (NFRD).
12.	CRK Nair	Director (RC)	23386378	Implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in

123 GI/06-3

				Uttaranchal, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Empowered Committee, Parliament Coordination, Media, Miscellaneous, JBIC, DFID relating to PMGSY.
13.	A.K.Dutt	Director (RC)	23782560	Implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Himachal Pradesh, Jharkhand, Rajasthan, Uttar Pradesh and Policy Guidelines, Resource Generation, National Rural Roads Development Agencies (NRRDA), World Bank and Bharat Nirman scheme relating to PMGSY.
14.	B.Pradhan	Director (RC)	23097048	Implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Bihar (including World Bank funded PMGSY), Madhya Pradesh, Assam Chhatisgarh, West Bengal, Orissa and Parliament Coordination, Annual Plan, Budget, Asian Development Bank, Online Management, Monitoring and Accounting System (OMMAS) relating to PMGSY.
15.	V.J.Menon	Deputy Secretary (IFD)	23381967	All the financial approval and budget matters of Department of Rural Development.
16.	Ms. Vanita Rattan Sharma	Deputy Secretary (SGSY)	23381028	District Rural Development Agencies (DRDA) Administration, coordination with RBI, NABARD, SIDBI, Banks and States/ UTs on credit issues under Swarnajayanti Gram Swarajgar Yojana (SGSY), Convergence of SGSY programmes, Central Level Coordination Committee (CLCC), Project Directors conference etc.
17.	E.J. Jos	Deputy Secretary (IC/Trg/NIR D)	23384399	All matters relating to International Cooperation (IC), Training and National Institute of Rural Development (NIRD).
18.	S.K. Batra	Deputy Secretary (NSAP)		Monitoring the schemes under National Social Assistance Programmes comprising National Old

				Age Pension Scheme, National Family Benefit Scheme and Annapurana Scheme.
19.	Krishna Kumar	Deputy Secretary (SGRY)	23384338	All matters relating to Sampoorana Gramin Rojgar Yojana (SGRY) like policy matters, release of central share of funds/foodgrains, CAG matter, budget, guidelines, monitoring and budget allocation etc..
20.	Ashok Mehta	Deputy Secretary (RC)	23386173	Implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Tripura, Union Territories and General Coordination, Bihar empowered committee and release of funds relating to PMGSY.
21.	V.B.Singh	Joint Director (Admn)	23389828	All the matters relating to general administration and establishment of the D/o Rural Development, United Nations Development Project (UNDP), vigilance etc.
22.	Atul Gupta	Joint Director (SGSY)	23388431	Special Projects under Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY) and Monitoring work of SGSY etc.

### Department of Land Resources

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh)	Designation	Telephone no.	Subject matter
1.	N.K. Singh	Director	23062456	Head of Department in respect of Department of Land Resources, Appointing authority and Disciplinary authority in respect of group 'C' posts, Appellate authority in respect of group 'D' posts.
2.	M. Aslam	Director	23061792	Supervision of work of Integrated Finance Division, examination of the financial proposals in respect of D/o Land Resources and D/o Drinking Water Supply.
3.	D.P.Roy	Director	24360946	Supervision of work of Land Resources Division, examination of the proposals

123 GI/06-4

				regarding release of funds to States/ UTs under the schemes of computerization of Land Records and strengthening of Revenue Administration and updating of Land Records.
4.	P.K.Sarangi	Director	24362396	Examination of legislative proposals relating to land laws, examination of the proposals and making recommendations in the matters relating to distribution of ceiling surplus lands, Government wastelands, Bhoodan lands and other allied matters.
5.	Anoop Badhwa	D.I.G.(F)	24360873	Supervision of work of Drought Prone Area Programme (DPAP)/ Desert Development Programme (DDP) division, sanction of projects and release of funds under DPAP/DDP, examination of proposals on policy and other allied matters relating to DPAP/DDP.
6.	Dr Harsh Mitter	D.I.G.(F)	23062351	Examination of proposals and making recommendations for sanction of projects/release of funds under Integrated Wasteland Development Programme (IWDP) in Orissa, Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamilnadu, Kerala, Pandicherry, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, policy and other allied matters relating to IWDP.
7.	A.K.Shukla	Deputy Adviser (Forestry)	23062616	Sanction of projects/release of funds under IWDP in Himachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Haryana, J & K, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Bihar, Jharkhand, Goa, West Bengal,

				Delhi, Chandigarh, Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu. Matters relating to Wasteland Development Task Force.
8.	Smt Archana Singh	A.I.G.(F)	23062454	Sanction of projects /release of funds under IWDP in Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.
9.	Dr. D. Ramakrishnaiah	Scientist (TE)	23063160	Sanction of projects and release of funds under Technology, Development Extension, Investment Promotion and Bio-fuel schemes.

2. The Central Public Information Officers (CPIOs) shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information. The Central PIO may seek the assistance of any other officer as may be considered necessary for the proper discharge of duties. Any officer, whose assistance has been sought under the above mentioned Act, shall render all assistance to the Central PIOs and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as Central PIO under Section 5(5) of the Right to Information Act, 2005.

3. All CPIOs are also requested to maintain the details regarding the number of requests etc. received and action taken so as to ensure compliance with the various provisions particularly section 25 of the Right to Information Act, 2005.

4. The Appellate Authority u/s 19(1) of the Act is Joint Secretary (IEC) in the Ministry.

Smt Nilam Sawhney  
Joint Secretary to the Government of India  
PH- (011) 23389432.

**Public Information Officers (PIO) of the Public Authorities under the aegis of the Ministry of Rural Development**

Sl.no.	Name of the Organisation	Name and Designation of PIO	Telephone nos.
1.	National Institute of Rural	Smt A. Dhanalaxmi	(040) 24008504

	Development (NIRD), Rajendranagar, Hyderabad-500 030.	Assistant Registrar, NIRD	
2.	National Rural Roads Development Agency (NRRDA), 15 NBCC Tower, 5 <sup>th</sup> floor, Bhicaji cama place, New Delhi-110 066	Smt. Gargi Kaul Director (Finance),	(011) 51459189/2671 6930
3.	Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), India Habitat Centre, Zone-5A (Core-C), 2 <sup>nd</sup> floor, Lodhi Road, New Delhi-110 003.	Sh.C.S.Pandey, Director,	(011) 24656701

[No. K-11018/03/2005-RTI]

SURAJ BHAN, Under Secy.